



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि. Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Enterprises)

पाचवां तल, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110001

5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building Complex, New Delhi -110001

सं.प्रका/एचक्यू/एचआर/4/प्रतिनियुक्ति/5/भाग-2

22.02.2018

सभी महाप्रबंधक / क्षेत्रीय रेल कार्यालय
कार्यालय प्रमुख / केन्द्रीय सरकार के कार्यालय
कार्यालय प्रमुख / केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू)
कार्यालय प्रमुख / अन्य

विषय: डीएफसीसीआईएल के राजभाषा विभाग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कर्मचारियों की आवश्यकता

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) भारत सरकार, रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत अनुसूची "ए" का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह अवसंरचना के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एवं वृहद परियोजना है, जो कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और स्वर्णिम चतुर्भुज के साथ उच्च गति के रेल फ्रेट कोरीडोर के निर्माण के लिए स्थापित की गई है। प्रथम चरण में दो डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर मुंबई-दिल्ली (पश्चिमी कोरीडोर) और दिल्ली-कोलकाता (पूर्वी कोरीडोर) का निर्माण शामिल है। वर्तमान में कंपनी का अपना नई दिल्ली में कॉर्पोरेट कार्यालय है तथा फील्ड यूनिटों में मुंबई (उत्तर), मुंबई (दक्षिण) सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, अजमेर, जयपुर, नोएडा, अंबाला, इलाहाबाद (पूर्व), इलाहाबाद (पश्चिम), मेरठ, मुगलसराय, टूंडला (आगरा) एवं कोलकाता है।

- कंपनी केन्द्र और केन्द्र सरकार के अंतर्गत (सी एंड ए जी द्वारा लेखा परीक्षण किए जाने वाले) आने वाले अधीनस्थ संबद्ध कार्यालयों एवं स्वायत्त निकायों, केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, संयुक्त वेंचर्स अथवा केन्द्र और राज्य सरकार के बीच कम से कम 50 प्रतिशत भागीदारी के साथ किसी अन्य रूप में कार्यरत संगठनों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर वरिष्ठ कार्यकारी / राजभाषा के पद हेतु अपने कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में निम्नलिखित विवरण के अनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित करता है।

3. (विज्ञापन की तारीख पर) आवश्यक योग्यता मानदंड:

क्र.सं.	पदों की संख्या	पद, एवं डीएफसीसीआईएल में अनुमेय आईडीए वेतनमान	प्रतिनियुक्ति के आधार पर पद के भरने के लिए योग्यता मानदंड	
			मूल संवर्ग सीडीए में बैंड + ग्रेड पे	डीपीई द्वारा निर्धारित सार्वजनिक उपक्रमों में धारण आईडीए वेतनमान
1	2	3	4	5
1.	राजभाषा 02	वरिष्ठ कार्यकारी ई-1 (रु.16400-40500)	कर्मचारी पीबी-2 ग्रेड पे रु. 4200 में कनिष्ठ अनुवादक के पद पर तीन वर्ष से नियमित आधार पर कार्य कर रहा हो.	कर्मचारी नियमित आधार पर ई -3 वेतनमान रु. 12600-32500 में कनिष्ठ अनुवादक के पद पर तीन वर्ष से कार्य कर रहा हो.

			<p>अनिवार्य योग्यता एवं अनुभव:</p> <p>कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर हो तथा स्नातक परीक्षा हिंदी एवं अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण हो।</p> <p>अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी से इतर किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा इसके समकक्ष और डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय हो।</p> <p>और</p> <p>क) हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम</p> <p>ख) कर्मचारी कंप्यूटर पर हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग करने में निपुण हो।</p> <p>वांछनीय योग्यता:</p> <p>कर्मचारी को हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने का तीन वर्ष का अनुभव हो।</p>
--	--	--	--

- प्रारंभ में प्रतिनियुक्ति अवधि तीन वर्ष के लिए होगी जिसको डीएफसीसीआईएल की आवश्यकता के आधार पर पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। चयनित अभ्यर्थी अपने मूल विभाग के वेतन के बराबर की राशि एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता हेतु पात्र होगा।
- सभी क्षेत्रीय रेलवे से अनुरोध है कि उक्त पद हेतु कर्मचारी की आवश्यकता के संबंध में इसका प्रचार-प्रसार वृहद रूप में करें। डीएफसीसीआईएल में प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण करने वाले इच्छुक कर्मचारियों के आवेदन पत्र जो कि आवेदक द्वारा समस्त सूचनाएं देते हुए विधिवत रूप में भरे गए हैं तथा संबंधित नियोक्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हैं, को इस सूचना के जारी होने के तीस दिनों के अंतर्गत एक बंद प्रारूप में अनुशासन एवं अपील नियम / सतर्कता क्लियरेंस एवं पिछले पाँच वर्षों की एपीएआर रेटिंग (एपीएआर की प्रति आवश्यक नहीं) के साथ प्रेषित किए जाएं। अभ्यर्थी द्वारा सीधे भेजे गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। केवल वर्तमान नियोक्ता के माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र (संलग्न दस्तावेजों सहित) पर ही विचार किया जाएगा।

(सुन्दर सिंह)

अपर महाप्रबंधक / मानव संसाधन



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Enterprises)

पाचवां तल, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110001

5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building Complex, New Delhi -110001
